

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2024—श्रावण 25, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीय डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर मध्यप्रदेश

विज्ञापित क्र. / एमपीआईडीसी-क्षे.का.इं-भू-अर्जन-2024-11049

इन्दौर, दिनांक 14 अगस्त 2024

[नियम 7 (5) देखिए]

[अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन अन्तिम रूप से अनुमोदित योजना क्षेत्र के प्रकाशन की सूचना]

मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 24, सन् 2013) की धारा 4 उपधारा (6) के अधीन निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना (इन्दौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर) के अनुमोदित योजना क्षेत्र को मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम, 2016 के नियम 7 के उपनियम (5) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा (अन्तिम रूप से) प्रकाशित किया जाता है. इन्दौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर योजना में निम्नानुसार ग्रामों के खसरा नंबरों की भूमियां समाविष्ट होंगी.

(1) ग्राम कोर्डियाबर्डी के खसरा नंबर—

1 पार्ट, 2 पार्ट, 6 पार्ट.

(2) ग्राम नैनोद के खसरा नंबर—

139 पार्ट, 140 पार्ट, 141 पार्ट, 142, 143, 144, 145 पार्ट, 149 पार्ट, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 पार्ट, 158 पार्ट, 159 पार्ट, 160 पार्ट, 161, 162, 163, 164, 165 पार्ट, 166 पार्ट, 197 पार्ट, 200 पार्ट, 201 पार्ट, 202, 203 पार्ट, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 पार्ट, 215, 216 पार्ट, 217 पार्ट, 238, पार्ट, 239 पार्ट, 247 पार्ट, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 पार्ट, 259 पार्ट, 259/339, 260/2 पार्ट, 327 पार्ट, 328 पार्ट, 329, 330 पार्ट, Z-1, Z-2.

(3) ग्राम रिंजलाय के खसरा नंबर—

53 पार्ट, 129 पार्ट, 130 पार्ट, 131 पार्ट, 132 पार्ट, 133, 134 पार्ट, 135, 136 पार्ट, 137 पार्ट, 159 पार्ट, 304 पार्ट, 305 पार्ट, 306 पार्ट, 307 पार्ट, 308, 309, 310, 311 पार्ट, 315 पार्ट, 316 पार्ट, 317 पार्ट.

(4) ग्राम बिसनावदा के खसरा नंबर—

259 पार्ट, 291 पार्ट, 292 पार्ट, 293 पार्ट, 294 पार्ट, 295 पार्ट, 298 पार्ट, 299 पार्ट, 302 पार्ट, 303 पार्ट, 304/369 पार्ट, 306 पार्ट, 307 पार्ट, 308, 309, 310 पार्ट, 311 पार्ट, 312 पार्ट, 313, 314, 315 पार्ट, 316 पार्ट, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 पार्ट, 325 पार्ट, 326 पार्ट, 325/368, 327 पार्ट, 328 पार्ट, 329 पार्ट, 330, 331, 332, 333 पार्ट, 334, 335 पार्ट, 336 पार्ट, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346 पार्ट, 347 पार्ट.

(5) ग्राम नावदापंथ के खसरा नंबर—

1 पार्ट, 11 पार्ट, 13 पार्ट, 16पार्ट, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पार्ट, 26, 27 पार्ट, 28 पार्ट, 36 पार्ट, 59 पार्ट, 83 पार्ट, 96 पार्ट, 97, 98, 99, 100, 101, 102 पार्ट, 104 पार्ट, 107 पार्ट, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 पार्ट, 120 पार्ट, 121 पार्ट, 123 पार्ट, 124 पार्ट, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 पार्ट, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 पार्ट, 164 पार्ट, 165, 166, 184 पार्ट, 185, 186, 187, 188 पार्ट, 189 पार्ट, 194 पार्ट, 197 पार्ट, 199 पार्ट, 200, 201, 202, 205 पार्ट, 206 पार्ट, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 पार्ट, 218, 219, 220, 221, 222 पार्ट, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 पार्ट, 236, 237, 238, 239, 240 पार्ट, 241/1 पार्ट, 242 पार्ट, 251 पार्ट, 252 पार्ट, 253 पार्ट, 254 पार्ट, 299 पार्ट.

(6) ग्राम श्रीरामतलावली के खसरा नंबर—

123 पार्ट, 236 पार्ट, 237, 238, 238/296, 239 पार्ट, 240, 241, 242 पार्ट, 243, 244, 245, 246, 247, 248 पार्ट, 250 पार्ट, 251, 252, 253, 254 पार्ट, 255, 256, 257 पार्ट, 258, 259, 260, 261, 262 पार्ट, 263 पार्ट, 264 पार्ट, 265 पार्ट, 266 पार्ट, 267 पार्ट, 268, 269, 270, 271, 272 पार्ट, 273 पार्ट, 274, 275, 276 पार्ट, 277 पार्ट, 280 पार्ट, 284 पार्ट, 285 पार्ट, 286, 287 पार्ट, 289 पार्ट, 290, 291, 292, 293, 294, 295 पार्ट.

(7) ग्राम सिन्दौड़ा के खसरा नंबर—

1, 2, 3, 3/428, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पार्ट, 10 पार्ट, 20 पार्ट, 21 पार्ट, 22, 23 पार्ट, 24 पार्ट, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 पार्ट, 33/441 पार्ट, 42 पार्ट, 43 पार्ट, 44, 45, 46 पार्ट, 51 पार्ट, 59 पार्ट, 60, 61 पार्ट, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 पार्ट, 75 पार्ट, 76, 77 पार्ट, 90 पार्ट, 91 पार्ट, 92, 93 पार्ट, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101/431, 102 पार्ट, 103 पार्ट, 105 पार्ट, 106, 107, 108, 109, 110 पार्ट, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 पार्ट, 118 पार्ट, 119 पार्ट, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 पार्ट, 168 पार्ट, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 पार्ट, 322 पार्ट.

(8) ग्राम सिंदोड़ी के खसरा नंबर—

174 पार्ट, 175 पार्ट, 176, 177 पार्ट, 182 पार्ट, 183 पार्ट, 184, 185, 186 पार्ट, 192 पार्ट, 193, 194, 195, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 202 पार्ट, 203, 204, 205, 206.

(9) ग्राम शिवखेड़ा के खसरा नंबर—

1/691 पार्ट, 2/1/692, 2/2/693, 3/694 पार्ट, 4/695 पार्ट, 5/696 पार्ट, 7/698 पार्ट, 8/699, 9/700, 10/701, 11/702, 11/703, 12/704, 13/705, 14/1/706, 14/2/707, 15/708 पार्ट, 16/709 पार्ट, 17/710, 18/710 पार्ट, 19/710 पार्ट, 21/712 पार्ट, 22/712, 23/713 पार्ट, 25/715 पार्ट, 97/795 पार्ट, 98/796 पार्ट, 99/1/797 पार्ट, 100/798 पार्ट, 101/799 पार्ट, 102/800 पार्ट, 103/1/801 पार्ट, 103/2/802 पार्ट, 104/803, 105/804, 106/805, 107/806 पार्ट, 108/807 पार्ट, 109/808 पार्ट, 110/809 पार्ट.

(10) ग्राम नरलाय के खसरा नंबर—

1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 21 पार्ट.

(11) ग्राम मोकलाय के खसरा नंबर—

1/155 पार्ट, 2, 2/156 पार्ट, 3, 4 पार्ट, 5, 6, 7, 8 पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट, 11 पार्ट, 11/158 पार्ट, 12 पार्ट, 15 पार्ट, 34 पार्ट, 35 पार्ट, 37 पार्ट, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 पार्ट, 46, 47 पार्ट, 48 पार्ट, 49 पार्ट, 59 पार्ट, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 पार्ट, 72 पार्ट, 84 पार्ट, 85, 86 पार्ट, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 पार्ट, 99 पार्ट, 104 पार्ट, 105 पार्ट, 106 पार्ट, 107 पार्ट, 108, 109 पार्ट, 110 पार्ट, 111 पार्ट, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 पार्ट, 121, 122, 123, 124 पार्ट, 125 पार्ट, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 पार्ट, 137 पार्ट, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 पार्ट.

(12) ग्राम डेहरी के खसरा नंबर—

46 पार्ट, 47 पार्ट, 48 पार्ट, 161 पार्ट, 175 पार्ट, 176 पार्ट, 177 पार्ट, 181 पार्ट, 182 पार्ट, 183, 184, 185 पार्ट, 195 पार्ट.

(13) ग्राम सोनवाय के खसरा नंबर—

1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पार्ट, 16 पार्ट, 17, 18 पार्ट, 19 पार्ट, 20 पार्ट, 24 पार्ट, 32 पार्ट, 33 पार्ट, 34 पार्ट, 35 पार्ट, 36 पार्ट, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 पार्ट, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 पार्ट, 63 पार्ट, 64 पार्ट, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 पार्ट, 104, 105 पार्ट, 112 पार्ट, 113 पार्ट, 114 पार्ट, 115 पार्ट, 116 पार्ट, 120, 121 पार्ट, 122, 123 पार्ट, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 पार्ट, 154 पार्ट, 155 पार्ट, 161 पार्ट, 163 पार्ट, 164, 165 पार्ट, 174 पार्ट, 175 पार्ट, 178 पार्ट, 179, 180, 181 पार्ट, 184 पार्ट, 185 पार्ट, 186, 187, 188, 189, 190, 191 पार्ट, 192 पार्ट, 370 पार्ट, 371, 372 पार्ट, 373, 374 पार्ट, 375 पार्ट, 376 पार्ट, 378 पार्ट, 379 पार्ट, 380 पार्ट, 381, 382 पार्ट, 383 पार्ट, 384, 385, 386, 387 पार्ट, 388 पार्ट, 391 पार्ट, 392 पार्ट.

(14) ग्राम भैंसलाय के खसरा नंबर—

1 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पार्ट, 26, 27, 28 पार्ट, 31 पार्ट, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 पार्ट, 41, 42, 43, 44 पार्ट, 45 पार्ट, 46, 47, 48 पार्ट, 49 पार्ट, 50 पार्ट, 54 पार्ट, 55 पार्ट, 59 पार्ट, 61 पार्ट, 62, 63, 64, 65, 66 पार्ट, 69 पार्ट, 70 पार्ट, 79 पार्ट, 80 पार्ट, 81 पार्ट, 82 पार्ट, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 पार्ट, 97 पार्ट, 98 पार्ट, 99, 100, 101 पार्ट, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 पार्ट, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 पार्ट, 122, 123, 124, 125 पार्ट, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 पार्ट, 136 पार्ट, 137 पार्ट, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 पार्ट, 192/484 पार्ट, 197 पार्ट, 198 पार्ट, 199 पार्ट, 203 पार्ट, 204 पार्ट, 205 पार्ट, 229 पार्ट, 230 पार्ट, 231, 232 पार्ट, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 पार्ट, 276 पार्ट, 277 पार्ट, 278 पार्ट, 280 पार्ट, 286 पार्ट, 287 पार्ट, 288, 289, 290, 291, 292 पार्ट, 297 पार्ट, 298 पार्ट, 299, 300 पार्ट, 301, 302, 303 पार्ट.

(15) ग्राम बागोदा के खसरा नंबर—

311 पार्ट, 313 पार्ट, 316 पार्ट, 317 पार्ट, 318 पार्ट.

(16) ग्राम टीही के खसरा नंबर—

1 पार्ट.

(17) ग्राम धन्नड़ के खसरा नंबर—

990 पार्ट, 995 पार्ट, 996 पार्ट, 997, 998, 999, 1000 पार्ट, 1001 पार्ट, 1002 पार्ट, 1037 पार्ट, 1058 पार्ट, 1059 पार्ट, 1060, 1061 पार्ट, 1062 पार्ट, 1063, 1064 पार्ट, 1065 पार्ट, 1066 पार्ट, 1067 पार्ट, 1068, 1069, 1070 पार्ट, 1071 पार्ट, 1072 पार्ट, 1073 पार्ट, 1074, 1075 पार्ट, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083 पार्ट, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 पार्ट, 1117 पार्ट, 1118 पार्ट, 1119 पार्ट, 1120 पार्ट, 1121 पार्ट, 1122, 1123, 1124 पार्ट.

नोट :- इन्दौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर योजना, सीमा क्षेत्र अनुसार (खसरा प्लान अनुसार) भूमियाँ योजना में समाविष्ट होंगी.

(G-1710)

सपना अनुराग जैन, कार्यकारी संचालक.

कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर, मध्यप्रदेश

क्र-जविप्रा-2024-भू-अर्जन-462.

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2024

संशोधन

जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक-11 द्वितीय चरण (ग्राम लक्ष्मीपुर) के अंतर्गत तत्समय ग्रीन बेल्ट की तत्समय त्रुटिवश राजपत्र में दिनांक 5 अक्टूबर 1979 को धारा 71(2) के तहत दिनांक 2 जुलाई 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित भूमि के डीनोटिफिकेशन की सूचना प्रकाशित हुई थी, जिसमें संशोधन सूचना निम्नानुसार राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है:-

पूर्व में प्रकाशित त्रुटिपूर्ण विवरण			सही विवरण		
क्र.	ख.नं.	रकबा (हेक्टे. में)	क्र.	ख.नं.	रकबा (हेक्टे. में)
01.	87	में से 0.047	01.	87	में से 0.293
02.	96	में से 0.488	02.	96	में से 1.714

पूर्व में प्रकाशित त्रुटिपूर्ण विवरण क्रमांक 01 एवं 02 के स्थान पर सही विवरण क्रमांक 01 एवं 02 पढ़ा जावे.

(G-1711)

DEEPAK K VAIDYA, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

CHANGE OF NAME

In the pension records of my late spouse, Shree Jayant Khirwadkar, my family name is incorrectly listed as Jayshree khirwadkar ; but my actual name & name on my Aadhar Card are Suman Khirwadkar.

Old Name

New Name

(JAY SHREE KHIRWADKAR)

(SUMAN KHIRWADKAR).

(G-1712)

नाम परिवर्तन

मैं, भगवानदास पटैल, वल्द स्वर्गीय उमराव पटैल, निवासी-186, पठवा तगड़ा, तिली वार्ड, सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.). मेरे पुत्र अभय पटैल के आधार कार्ड में भूलवश नाम बैजनाथ लिखा गया है, जो त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे पुत्र अभय पटैल के शासकीय, अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अभय पटैल नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत अभय पटैल के नाम से लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

(G-1713)

आवेदक

(भगवान दास पटैल).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण सूचित हों कि मेरा नाम ANUJ KUMAR SHARMA है. यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि में दर्ज है. जबकि मेरी पॉलिसी में मेरा पूर्व नाम VIKAS SHARMA दर्ज हो गया है. उक्त दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में समस्त प्रयोजन हेतु मुझे VIKAS SHARMA के स्थान पर ANUJ KUMAR SHARMA के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(VIKAS SHARMA)

नया नाम

(ANUJ KUMAR SHARMA)

S/o Shri Murari Lal Sharma,

R/o Jhawar Estate, Thatipur,

Gwalior (M.P.).

(G-1714)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, टिविकल मालवीय (TWINKLE MALVIYA) पुत्र श्री चन्द्र शेखर मालवीय, निवासी-विजय कालोनी, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शिवांशु मालवीय (SHIVANSHU MALVIYA) दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. जबकि मेरी अंकसूची, पेन कार्ड और अन्य दस्तावेज आदि में मेरा सही नाम टिविकल मालवीय (TWINKLE MALVIYA) पुत्र श्री चन्द्र शेखर मालवीय लिखा हुआ है, जो कि सत्य एवं सही है. अतः मुझे भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में टिविकल मालवीय (TWINKLE MALVIYA) पुत्र श्री चन्द्र शेखर मालवीय के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(शिवांशु मालवीय)

नया नाम

(टिविकल मालवीय)

(TWINKLE MALVIYA)

पुत्र-श्री चन्द्र शेखर मालवीय.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम काजल पिता मोहनसिंह दर्ज हो गया है. जबकि मेरा वास्तविक नाम युक्ता राजपूत (Yukta Rajput) पति कृष्ण कुमार राजपूत है. जो मेरे सभी दस्तावेजों में दर्ज हैं. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(काजल)

पिता-मोहनसिंह

(G-1716)

नया नाम

(युक्ता राजपूत)

(Yukta Rajput)

पति-कृष्ण कुमार राजपूत.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शिल्पा वर्मा (Shilpa Verma) पत्नी श्री ब्रिजेश कुमार वर्मा, आयु-वयस्क, निवासी-वार्ड नंबर-01, ब्योहारी, बोहरी, शहडोल मध्यप्रदेश में निवासरत् हूँ, मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरा नाम अनैशा वर्मा (Anesha Verma) पत्नी श्री ब्रिजेश कुमार वर्मा अंकित है, जो मेरी पुत्री का नाम है, मेरे सभी दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम श्रीमती शिल्पा वर्मा (Shilpa Verma) पत्नी श्री ब्रिजेश कुमार वर्मा है, प्रकाशन उपरांत मुझे अपने सही नाम श्रीमती शिल्पा वर्मा (Shilpa Verma) पत्नी श्री ब्रिजेश कुमार वर्मा के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(अनैशा वर्मा)
(Anesha Verma)

नया नाम
(श्रीमती शिल्पा वर्मा)
(Shilpa Verma)
पत्नी-श्री ब्रिजेश कुमार वर्मा.

(G-1717)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मिस कनुप्रिया श्रीवास्तव (Ms. Kanupriya Shrivastava) पुत्री श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव, निवासी-01, शांति निकेतन, नजदीक बॉम्बे हॉस्पिटल, इंदौर (म.प्र.) मैं, श्रीमती कनुप्रिया श्रीवास्तव जैन (Mrs. Kanupriya Shrivastava Jain) पुत्री श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ, प्रकाशन उपरांत मेरा नया नाम मिस कनुप्रिया श्रीवास्तव (Ms. Kanupriya Shrivastava) पुत्री श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव समस्त शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेज एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये, लिखा-पढ़ा और समझा, सुना एवं बोला जाये.

पुराना नाम
(श्रीमती कनुप्रिया श्रीवास्तव जैन)
(Mrs. Kanupriya Shrivastava Jain)

नया नाम
(मिस कनुप्रिया श्रीवास्तव)
(Ms. Kanupriya Shrivastava)
पुत्री-श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं
श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव.

(G-1718)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम शिल्पी चौपड़ा (Shilpi Chopra) था. विवाह के पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तन कर शिल्पी जैन (Shilpi Jain) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम शिल्पी जैन (Shilpi Jain) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम
(शिल्पी चौपड़ा)

नया नाम
(शिल्पी जैन)
पता-121/ए, देवरा देव नारायण नगर,
रतलाम (म.प्र.).

(G-1719)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम आस्था ताम्रकार (Astha Tamrakar) था. विवाह के पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तन कर आस्था नायक (Astha Nayak) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम आस्था नायक (Astha Nayak) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम
(आस्था ताम्रकार)

नया नाम
(आस्था नायक)
पता-127-बी, वैशाली नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-1720)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमन अली, मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अमन अली (Aman Ali) दर्ज है, लेकिन मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश/गलती से मेरा नाम मोहम्मद माहिर अहमद (Mohammad Mahir Ahmed) अंकित हो गया है जो कि असत्य है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय आदि दस्तावेजों में सही नाम अमन अली (Aman Ali) के नाम से जाना-पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मोहम्मद माहिर अहमद)
(MOHAMMAD MAHIR AHMED)

नया नाम
(अमन अली)

पिता-महफूज अली,
निवासी-S/o आबिद अली, 1264, हसनात नगर,
वार्ड नं. 22, हुजूर विद्याविहार,
भोपाल (म.प्र.).

(G-1721)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आकाश कोल (AKASH KOL) पुत्र श्री मुन्ना कोल, निवासी-ग्राम-वीरपुर, पोस्ट-झखौरा, तहसील-मझगवा, जिला-सतना, मध्यप्रदेश. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम आकाश रावत अंकित हो गया है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण-पत्र एवं अंकपत्रों पर सही नाम आकाश कोल (AKASH KOL) अंकित है. जो कि सत्य एवं सही नाम है. आकाश रावत व आकाश कोल दोनों मेरे ही नाम है. मुझे मेरे सही नाम आकाश कोल (AKASH KOL) के नाम से जाना-पहचाना व लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(आकाश रावत)

नया नाम
(आकाश कोल)
(AKASH KOL)
पुत्र-श्री मुन्ना कोल.

(G-1722)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इमल बाई सुरडकर (Imal Bai Surdrar) पत्नी श्री रामकृष्ण सुरडकर, निवासी-मकान 99, राहुल नगर, पम्पापुर MACT रोड, (म.प्र.) पूर्व में मेरा नाम लीला बाई सुरडकर पत्नी श्री रामकृष्ण सुरडकर था. जो कि मेरे आधार कार्ड में अंकित है एवं वर्तमान में मेरा नाम इमल बाई सुरडकर (Imal Bai Surdrar) पत्नी श्री रामकृष्ण सुरडकर हो गया है, जो मेरे परिचय-पत्र/वोटर कार्ड में अंकित है. उक्त दोनों नाम अर्थात लीला बाई सुरडकर पत्नी श्री रामकृष्ण सुरडकर एवं इमल बाई सुरडकर एक ही व्यक्ति का नाम है. इमल बाई सुरडकर पत्नी श्री रामकृष्ण सुरडकर के नाम से प्रकाशन उपरांत लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(लीला बाई)

नया नाम
(इमल बाई सुरडकर)

(G-1723)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, जगदीश सोलंकी पुत्र-श्री बालू सिंह सोलंकी, निवासी-ग्राम लसूडल्या खेराज, पोस्ट मोहन, तहसील व थाना जीरापुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश. मेरे शासकीय अभिलेखों (दस्तावेजों)

अधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम जगदीश वर्मा अंकित है. जिसे मैं, परिवर्तन कर जगदीश सोलंकी कर रहा हूँ, अब से मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम जगदीश सोलंकी लिखा, पढ़ा एवं समझा जावे तथा दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से भविष्य में जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम
(जगदीश वर्मा)
(JAGDISH VERMA)
(G-1724)

नया नाम
(जगदीश सोलंकी)
(JAGDISH SOLANKI)
पिता-बालूसिंह सोलंकी.

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम गौरीशंकर (Gaurishankar) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे गौरीशंकर कुमावत (Gourishankar Kumawat), निवासी-116, विदुर नगर, जिला इन्दौर (म.प्र.) के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा जावे.

(G-1725)

प्रार्थी
(गौरीशंकर कुमावत)
(Gourishankar Kumawat).

उपनाम परिवर्तन

मैं, रामलखन शर्मा S/o श्री रामजी लाल शर्मा, निवासी पुरुषोत्तम विहार, ग्वालियर मेरे सारे दस्तावेजों में मेरा नाम रामलखन उपाध्याय दर्ज है. मेरे सर्विस बुक (SR) में मेरा नाम रामलखन शर्मा के स्थान पर रामलखन उपाध्याय दर्ज कर भविष्य में मुझे रामलखन उपाध्याय के नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम
(रामलखन शर्मा)
(RAMLAKHAN SHARMA)

नया नाम
(रामलखन उपाध्याय)
(RAMLAKHAN UPADHYAY)
पिता-श्री रामजीलाल शर्मा,
पता-ए-28, पुरुषोत्तम विहार,
गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1726)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम सैय्यद मेहबूब अहमद पुत्र श्री सैय्यद अजीज अहमद था. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में भी यही नाम सैय्यद मेहबूब अहमद अंकित है. वर्तमान के दस्तावेजों जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सिंकदर अहमद पुत्र श्री सैय्यद अजीज अहमद दर्ज है. प्रकाशन उपरांत इसी नाम से जाना व पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सैय्यद मेहबूब अहमद)

नया नाम
(सिंकदर अहमद)
निवास-एफ-113/33, शिवाजी नगर,
भोपाल (म.प्र.).

(G-1727)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शंकर लाल विश्वकर्मा मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका नाम देव विश्वकर्मा (Dev Vishwakarma) दर्ज है, लेकिन उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश/गलती से उसका नाम अंशु विश्वकर्मा (Anshu Vishwakarma) अंकित हो गया है. जो कि असत्य है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सभी शासकीय/अशासकीय आदि दस्तावेजों में सही नाम देव विश्वकर्मा (Dev Vishwakarma) के नाम से जाना-पहचाना व दर्ज किया जाये.

प्रार्थी

(शंकर लाल विश्वकर्मा)

पुत्र-श्री छोटेलाल,

निवासी-पोस्ट शुक्कावाडा, गुडला,

जिला नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) (म.प्र.).

(G-1728)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम जानकी कुमारी को परिवर्तित कर नया नाम मीनाक्षी साह (Meenakshi Sah) हो गया है. इस प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम समस्त दस्तावेजों में जानकी कुमारी के स्थान पर मीनाक्षी साह लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(बैजू कुमार साह).

(G-1729)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश "गुरमीत भंडोले" अंकित हो गया है, जिसमें मैं, वर्तमान में अपने पुत्र का नाम "गीतांश भंडोले" कराना चाहता हूँ, अर्थात् मेरे पुत्र का नाम "गीतांश भंडोले" कराना चाहता हूँ, जिस हेतु मेरा पुत्र "गीतांश भंडोले" के नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

(सचिन भंडोले)

पिता-बाबुलाल भंडोले,

ग्राम-मोहिपुरा, तह. अंजड,

जिला बड़वानी (म.प्र.).

(G-1730)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अर्जुन वर्मा पुत्र श्री भवानी सिंह, निवासी-ग्राम-आमाझिर, पोस्ट-मोगराराम, तहसील व जिला-सीहोर, मध्यप्रदेश. मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम अनमोल वर्मा अंकित हो गया है. जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम विराज वर्मा (VIRAJ VERMA) पुत्र अर्जुन वर्मा है, जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र और अंकपत्र पर अंकित है. जो कि सत्य एवं सही नाम है. प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का उसके सही नाम विराज वर्मा (VIRAJ VERMA) पुत्र अर्जुन वर्मा के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

भवदीय,

(अर्जुन वर्मा).

(G-1731)

नाम परिवर्तन

मैं, संजय आ. श्री मोड़ सिंह बागरी, निवासी-म. नं. 45, ग्राम उण्डाई, पोस्ट मायापुर मंगोला, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश. मेरा सही नाम संजय है. जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है. वर्तमान में मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम संजय के स्थान पर अरविन्द दर्शित हो रहा है. जो गलत है. प्रकाशन उपरांत मेरा संजय ही नाम पढ़ा जावे तथा इसी नाम से मैं जाना व पहचाना जाऊंगा.

आवेदक
(संजय)

(G-1732)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अमित खंडेलवाल है. मेरे अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों से भी अमित खंडेलवाल है. लेकिन मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेज में गलती से मेरा नाम अमित महेन्द्र कुमार खंडेलवाल अंकित हो गया है. जो कि गलत है. प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के दस्तावेज में मेरा सही नाम अमित खंडेलवाल अंकित किया जाये.

आवेदक
(अमित खंडेलवाल)
75-ए, सेक्टर बी, कस्तुरबा नगर,
चेतक ब्रिज के पास भोपाल (म.प्र.).

(G-1733)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरे पुत्र का नाम विजय परमार पिता श्री सचिन परमार (Vijay Parmar S/o Sachin Parmar), निवासी-192, तेजाजी मोहल्ला, कोदरिया महु, जिला इन्दौर (म.प्र.) होकर मेरे पुत्र का नाम परिवर्तित कर प्रिंस वर्मा पिता श्री सचिन वर्मा कर लिया है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को संशोधित नाम प्रिंस वर्मा पिता श्री सचिन वर्मा (Prince Verma S/o Sachin Verma) के नाम से ही जाना-पहचाना व पुकार जाए.

भवदीय,
(सचिन वर्मा)

(G-1734)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद जहीर खान पिता मो. शरीफ, निवासी-म.नं. 58, टोल वाली मस्जिद रोड, आलोक प्रेस के पास, तलैया हुजूर, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम ज़ायना जहीर खान अंकित हो गया है. जो कि गलत है. जबकि उसका सही नाम फातिमा जहीर (Fatima Zaheer) पिता-मोहम्मद जहीर खान (Mohammad Zaheer Khan) है. जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में भी अंकित है. यह दोनों नाम मेरी पुत्री के ही हैं. अतः प्रकाशन के उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम फातिमा जहीर (Fatima Zaheer) पिता-मोहम्मद जहीर खान (Mohammad Zaheer Khan) के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

भवदीय,
(मोहम्मद जहीर खान)
(Mohammad Zaheer Khan).

(G-1735)

नाम परिवर्तन

मैं, RATNA P LAKHOTE पति PRAMOD LAKHOTE, निवासी-106, वी. आई. पी. नगर, रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम MADHURI था तथा मेरे पिता का नाम SUDHAKAR ARKADI है. मेरा विवाह PRAMOD LAKHOTE हो जाने से उपनाम सहित मेरा नाम RATNA P LAKHOTE हो गया है. अब मुझे मेरे नये नाम RATNA P LAKHOTE के नाम से ही जाना, पहचाना व पुकारा जाता है एवं इसी नाम से हस्ताक्षर करती हूँ तथा आगे भविष्य में भी RATNA P LAKHOTE के नाम से जानी-पहचानी जाऊंगी. उक्त MADHURI LAKHOTE SUDHAKAR ARKADI एवं RATNA P LAKHOTE एक ही महिला है. जो अलग-अलग महिलाएं नहीं हैं तथा उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व प्रपत्रों में जहां-जहां पर मेरा पुराना नाम MADHURI LAKHOTE अंकित हो वहां पर मेरा नया नाम RATNA P LAKHOTE अंकित किया जाये एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(MADHURI LAKHOTE SUDHAKAR ARKADI)
(G-1736)

नया नाम

(RATNA P LAKHOTE)
W/o. PRAMOD LAKHOTE.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जगदीश विश्वकर्मा पुत्र मांगीलाल विश्वकर्मा, निवासी-ग्राम-खंडवा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री दिव्यांशी विश्वकर्मा के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम पूर्ति (PURI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि उसके अंकपत्र और राशन कार्ड पर उसका सही नाम दिव्यांशी विश्वकर्मा (DIVYANSHI VISHWAKARMA) पुत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा लिखा हुआ है, जो कि सत्य एवं सही है. अतः मेरी पुत्री को भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में दिव्यांशी विश्वकर्मा (DIVYANSHI VISHWAKARMA) पुत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा के नाम से जाना-पहचाना व लिखा पढ़ा जावे.

भवदीय,

(G-1737)

(जगदीश विश्वकर्मा).

नाम परिवर्तन

मैं, कुंजबिहारी देवलकर पिता गेंदलाल देवलकर, निवासी-वार्ड नं.-15, पटवारी कार्यालय के पास, ग्राम हट्टा, तहसील व जिला बालाघाट, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र जिसका नाम चुमेश देवलकर पिता कुंजबिहारी देवलकर था. जो उसके आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेज, शासकीय, अर्द्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान में मेरे पुत्र चुमेश देवलकर का नाम बदलकर सचिन देवलकर रखा गया है. अब वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को सचिन देवलकर पिता कुंजबिहारी देवलकर के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जावेगा, उपरोक्त दोनों नाम मेरे पुत्र के ही हैं. आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, शासकीय, अर्द्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में अब मेरे पुत्र का नया परिवर्तित नाम सचिन देवलकर पढ़ा अंकित व दर्ज किया जावे.

सूचनाकर्ता

(G-1738)

(कुंजबिहारी देवलकर)
पिता-गेंदलाल देवलकर.

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप व्यास पिता श्री रविकांत व्यास, निवासी-मकान नं. 115, वार्ड नं. 02, गांधी मार्ग, बागली, जिला देवास (म.प्र.). अपने पुत्र देव व्यास का नाम शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में आदित्य व्यास होने के कारण देव व्यास नाम को परिवर्तित कर प्रकाशन उपरांत आदित्य व्यास लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी,

(G-1739)

(संदीप व्यास)
पिता-श्री रविकांत व्यास
पता-बागली, जिला देवास (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, चंद्र शेखर सिंह बघेल आत्मज स्व. श्री नर्वदा सिंह, निवासी-म. नं. 27, पूजा कॉलोनी, नीलबड़, भोपाल (म.प्र.) मेरा नाम मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश चंद्र शेखर सिंह एवं सेवा पुस्तिका में चंद्र शेखर सिंह ठाकुर दर्ज है। जबकि मेरे पेन कार्ड एवं आधार कार्ड में मेरा सही नाम चंद्र शेखर सिंह बघेल दर्ज है। चूँकि, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं, अतः मेरी सेवा पुस्तिका एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मुझे चंद्र शेखर सिंह बघेल (CHANDRA SHEKHAR SINGH BAGHEL) आ. स्व. श्री नर्वदा सिंह नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(चंद्र शेखर सिंह एवं चंद्र शेखर सिंह ठाकुर)

(G-1740)

नया नाम

(चंद्र शेखर सिंह बघेल)

(CHANDRA SHEKHAR SINGH BAGHEL)

पिता स्व. श्री नर्वदा सिंह,

(Late Shri Narvada Singh).

नाम परिवर्तन

मैं, सोहन राठौर पिता गोमा राठौर, निवासी-ग्राम बालकुंआ, तह. व जिला बड़वानी, वर्तमान में मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश "निरज" अंकित हो गया है, जबकि उसका सही वास्तविक एवं प्रचलित नाम "धिरज राठौर" है। अतः उक्त कारण से मैं मेरे पुत्र के पूर्व नाम "निरज" के स्थान पर प्रचलित नाम "धिरज राठौर" अंकित कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

(G-1741)

भवदीय,

(सोहन राठौर).

CHANGE OF NAME

I, Pawan Agrawal S/o. Shri Om Prakash Agrawal, R/o. B-1, 404, Shehna Residency, AB Road, MR Crossing Indore do hereby state that my earlier name was Pawan Kalanoria and now I have changed my name to Pawan Agrawal and from the date of this publication I declare that I would be known by the name of Pawan Agrawal.

Old Name

(PAWAN KALANORIA)

(G-1742)

New Name

(PAWAN AGRAWAL).

CHANGE OF NAME

I, Saurabh Tiwari S/o. Shri Ravi Sahankar Tiwari R/o. H.No. 278, Bhagirathpura Mama ji ki dharamshala wali gali, Indore (M.P.) do hereby state that me and my wife were blessed with a daughter whom we named Samayra Tiwari. We have decided to change our daughters name from Samayra Tiwari to Samriddhi Tiwari and from the date of this publication my daughter would be called and known by the name Samriddhi Tiwari.

(G-1743)

आवेदक,

(SAURABH TIWARI).

नाम परिवर्तन

मैं, मुनेश सिंह तोमर (MUNESH SINGH TOMAR) पुत्र रामपाल सिंह तोमर (RAMPAL SINGH TOMAR), सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश मुनेश रामपाल सिंह (MUNESH RAMPAL SINGH) पुत्र रामपाल बाबू सिंह (RAMPAL BABBO SINGH) हो गया है, जो कि गलत है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, मुनेश सिंह तोमर पुत्र रामपाल सिंह तोमर के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अतः मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम मुनेश रामपाल सिंह पुत्र रामपाल बाबू सिंह के स्थान पर मेरा नाम मुनेश सिंह तोमर पुत्र रामपाल सिंह तोमर लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(मुनेश रामपाल सिंह)
पुत्र-रामपाल बाबू सिंह

नया नाम
(मुनेश सिंह तोमर)
पुत्र-रामपाल सिंह तोमर,
पता-कौथर खुर्द, मुरैना (म.प्र.).

(G-1744)

PUBLIC NOTICE

ADMISSION OF PARTNERS M/s. SAPPHIRE HOSPITALITY INC, 18, Upper Ground Floor, Alark Arcade, Airport Road, BHOPAL (M.P.) 462 036 a partnership firm registered with the Registrar of Firms, Indore, vide a registered partnership deed with S.No. 01/01/01/0397/22, dated 20-12-2022. Hereby informed that who are having any transactions with above said firm now and in further they should contact with the partner 1. Abdul Tahir, 2. Peeyush Verma, 3. Mohan Lalchandani and 4. Arsalan Tahir. The general public is hereby informed that M/s. SAPPHIRE HOSPITALITY INC is a partnership firm which is reconstituted on 20-7-2024 due to addition/inclusion of the partner. 1. Arsalan Tahir, by virtue of Partnership deed executed amongst them 20-7-2024. The Incoming partners agreed to join the above mentioned firm with Abdul Tahir, Peeyush Verma and Mohan Lalchandani with the all rights, title, lien, easements, advantages and appurtenances etc. By this notice 1. Abdul Tahir, 2. Peeyush Verma, 3. Mohan Lalchandani and 4. Arsalan Tahir informs the public in general that, they are the only partners of M/s. SAPPHIRE HOSPITALITY.

SAPPHIRE HOSPITALITY INC,
ABDUL TAHIR
(Partner).

(G-1745)

नाम परिवर्तन

मैं, अयोध्या बाई (Ayodhya Bai), सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अयोध्या बाई (Ayodhya Bai) है। जो कि सही है। परंतु त्रुटि से आधार कार्ड में मेरा नाम अजुददी बाई (Ajuddi Bai) अंकित हो गया है और समग्र आईडी में मेरा नाम अयोध्या जी (Adhoya ji) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, अयोध्या बाई (Ayodhya Bai), अयोध्या जी (Adhoya ji) और अजुददी बाई (Ajuddi Bai) ये नाम एक ही व्यक्ति के हैं याने कि मेरे इस प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में अयोध्या बाई (Ayodhya Bai) के नाम से ही जाना- पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(अयोध्या जी Adhoya ji)
(अजुददी बाई Ajuddi Bai)

नया नाम
(अयोध्या बाई)
(Ayodhya Bai)
पता-100/1, रतोधना, ग्राम-रतोधना, लखनवास,
चाचौड़ा, गुना (म.प्र.).

(G-1746)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स साईं पाईप्स जो प्लॉट नं. 2 से 6 कुशमौदा इंडस्ट्रीयल एरिया, गुना (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-40-01-00098-10, दिनांक 24-7-2010 है, जिसमें दिनांक 1-4-2024 को बृजेश सिंह रघुवंशी पुत्र श्री भगवत सिंह रघुवंशी, निवासी-हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ए. बी. रोड, गुना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 1-4-2024 को भागीदार अमय सिंह रघुवंशी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह रघुवंशी, निवासी-जगदीश कॉलोनी, ए.बी. रोड, गुना (म.प्र.), फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

मेसर्स साईं पाईप्स,
महेन्द्र सिंह रघुवंशी
(भागीदार).

(G-1747)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S. SHRI BALAJI ENTERPRISES जो 01, GANGAMAI SANTAR, MOHANPUR, MORAR, GWALIOR (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0224-24, दिनांक 16-1-2024 है, जिसमें दिनांक 25-11-2019 को भागीदार उर्मिला शिवहरे पत्नी प्रेम नारायण शिवहरे, निवासी-गणपति विहार कॉलोनी, तानसेन रोड, ग्वालियर (म.प्र.), अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं दिनांक 16-1-2024 को भागीदार मुंशी लाल गुप्ता पुत्र श्री मथुरा प्रसाद गुप्ता, निवासी-GANGAMAI SANTAR, MORAR, MOHANPUR, GWALIOR (M.P.), अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 16-1-2024, गायत्री शिवहरे पुत्री श्री रमेश चंद शिवहरे, निवासी-गणपति विहार कॉलोनी, तानसेन रोड, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं।

M/S. SHRI BALAJI ENTERPRISES,
धर्मेन्द्र शिवहरे
(भागीदार).

(G-1748)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का जन्म से नाम कनक मीना है तथा उसके शिक्षण प्रमाण-पत्र में भी कनक मीना अंकित है। परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में टाईपिंग त्रुटि के कारण कनिश मीना अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम कनक मीना है तथा मेरी पुत्री कनक मीना के नाम से जानी व पहचानी जाती है।

प्रार्थी,
(विजय मीना)
आत्मज श्री विश्राम मीना,
निवासी-गोराड़ी घाट मिसरोद,
भोपाल (म.प्र.).

(G-1749)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हीरालाल जाटव आत्मज श्री फूलचंद जाटव, निवासी-वार्ड क्र. 18, शांति नगर, खेड़ापति मंदिर के पास नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम हीरालाल जाटव (HEERA LAL JATAV) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश दिनेश जाटव हो गया है, अब, मैं, अपने वास्तविक व नये नाम हीरालाल जाटव (HEERA LAL JATAV) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावजों में यही नाम रहेगा।

पुराना नाम
(दिनेश जाटव)
(DINESH JATAV)

नया नाम
(हीरालाल जाटव)
(HEERA LAL JATAV).

(G-1750)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मून लाइट कन्स्ट्रक्शन फर्म के रूप में सहायक पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर में पंजीकृत है। यह कि, फर्म के साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 20-9-2011 को साझेदार श्री योगेश गोयल पिता श्री श्याम सुन्दर गोयल, निवासी-23/2, मनोरमागंज, इंदौर (मध्यप्रदेश) ने स्वेच्छा से फर्म से इस्तीफा दिया है एवं फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं।

मेसर्स मून लाइट कन्स्ट्रक्शन,
Akhilesh Jain,
(पार्टनर).

(G-1751)

नाम परिवर्तन

मैं, श्याम सुंदर भालिका पुत्र भगवानदास भालिका (SHYAM SUNDER BHALIKAS/o BHAGWANDAS BHALIKA), निवासी-363, गुमास्ता नगर, मेन रोड, इंदौर (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्याम सुंदर भालिका अंकित है। प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे श्याम भालिका पुत्र भगवानदास भालिका (SHYAM BHALIKA S/o BHAGWANDAS BHALIKA) के नाम से जाना-पहचाना, पुकारा, पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम

(श्याम सुंदर भालिका)

(SHYAM SUNDER BHALIKA)

(G-1752)

नया नाम

(श्याम भालिका)

(SHYAM BHALIKA)

पिता-भगवानदास भालिका.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिम्मी (Simmi) पुत्री श्री जगराम मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सिम्मी (Simmi) दर्ज है। लेकिन मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश/गलती से मेरा नाम अनीता साहू (Anita Sahu) अंकित हो गया है। जो की असत्य है। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय आदि दस्तावेजों में मेरा नाम सिम्मी (Simmi) के नाम से जानी-पहचानी व दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(अनीता साहू)

(ANITA SAHU)

(G-1753)

नया नाम

(सिम्मी)

(SIMMI)

पिता-जगराम,
पता-32, संजय नगर कॉलोनी, रेल्वे स्टेशन,
भोपाल (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Hereby declare that, my correct name is Ashish Kumar kachole, which has written in my all of documents also. But in my Daughters School's documents and some of other documents like birth certificate etc. My name has written Ashish kachole, in which my middle name is not written. Henceforth in my Daughters's all documents my right name will be written and read Ashish Kumar kachole for all purposes.

Old Name

(ASHISH KACHOLE)

(G-1754)

New Name

(ASHISH KUMAR KACHOLE)

31, Janki Nagar, NX,
Indore (M.P.).

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 72 के अधीन)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जे. एस. कंस्ट्रक्शन, मकान नंबर ई-8-106, त्रिलोचन नगर, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.). जिसका पंजीयन क्र. 01-01-01-00036-14, सन् 2014-2015, दिनांक 28-4-2014 को किया गया था, इस फर्म में दो भागीदार हैं, प्रथम भागीदार श्री जय सिंह चौहान पिता श्री शिव सागर चौहान और दूसरा भागीदार श्रीमती अंजू चौहान पिता राजेंद्र चौहान हैं, भागीदारी फर्म जे. एस. कंस्ट्रक्शन का पता पहले ई-8/106, त्रिलोचन नगर, शाहपुरा, भोपाल, (म.प्र.) था. अब फर्म का पता 12-8-2024 से मकान नंबर ई-8/105, त्रिलोचन नगर, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.) होगा.

M/s J. S. Construction,**(जय सिंह चौहान)****Partner.**

(G-1755)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my Name's correct spelling is PRITPAL KAUR SALUJA , But in all my documents my name is spelled differently like Ppripal Kaur B S Saluja, Pritpal Kaur, Pritapal Kaur Saluja, Pritipal Kour, Preetapal Kaur, Pritipal Kaur Saluja. So from now on, the correct name PRITPAL KAUR SALUJA shall be written instead of all these wrong spellings.

Old Name

(PRITIPAL KAUR SALUJA)

New Name

(PRITPAL KAUR SALUJA)

W/o Balwant Singh Saluja,
Add.-156, Bhakt Prahlad Nagar,
Indore (M.P.).

(G-1756)

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक घरामी आ. श्री नीलकांत घरामी, निवासी-बंगाली कॉलोनी, नर्मदापुरम्, तहसील व जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में पुत्र का नाम त्रुटिवश Baby Two of Shankari Gharami अंकित किया गया है. मेरे पुत्र का सही नाम अक्षय घरामी आ. दीपक घरामी है. जो जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित है. जो कि सही है. मेरे पुत्र के नाम Baby Two of Shankari Gharami तथा अक्षय घरामी दोनों एक ही व्यक्ति हैं. प्रकाशन उपरांत अक्षय घरामी के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जावें.

भवदीय

(दीपक घरामी)

(G-1757)

नाम परिवर्तन

मैं, इंशा सुलतान पत्नी श्री मोहम्मद जुनेद खान निवासी-104, नशेमन, 21, बारह महल, शाहजहांनाबाद भोपाल. मैं, सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र का त्रुटिवश नाम मो. अकमल खान अंकित हो गया था. जिसे अब मोहम्मद अकमल खान के नाम से पढ़ा व जाना जाये.

आवेदिका

(इंशा सुलतान)

(G-1758)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम अयांश त्रिवेदी (AYAANSH TRVEDI) पिता श्री मनीष त्रिवेदी हैं, जो कि उसके सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज हैं. भविष्य में मेरे पुत्र अनघ त्रिवेदी (ANAGH TRIVEDI) पिता श्री मनीष त्रिवेदी के नाम से जाना-पहचाना जावे.

भवदीय

(अनघ त्रिवेदी)**(ANAGH TRIVEDI)**

पिता-श्री मनीष त्रिवेदी.

(G-1759)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थी HARSHITA LOKWANI के आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश MUSKAN LOKWANI दर्ज हो गया है, जबकि मेरी समग्र-ID, शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेजों में मेरा सही नाम HARSHITA LOKWANI दर्ज है, उक्त दोनों नाम मुझे एक ही व्यक्ति के हैं। मेरे आधार कार्ड में MUSKAN LOKWANI के स्थान पर सही नाम HARSHITA LOKWANI दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मुझे HARSHITA LOKWANI के नाम से ही पढ़ा-लिखा, जाना-पहचाना जावे व समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(MUSKAN LOKWANI)
(G-1760)

नया नाम
(HARSHITA LOKWANI हर्षिता लोकवानी)
पुत्री-श्री धीरज कुमार लोकवानी,
पता-Plot No. 52, Om Residency, Rajdev Colony,
Shanti Nagar, Berasia Road, Bhopal (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, DANISH KHAN S/o SHABBER AHMAD KHAN, Resident of 723, Azad Nagar, Indore (M.P.). Hereby declare that I have changed my name as MRITYUNJAY SINGH S/O SHABBER AHMAD KHAN So from now on and in future I will be known by my new name as MRITYUNJAY SINGH S/O SHABBER AHMAD KHAN for all future purposes.

Old Name
(DANISH KHAN)
(G-1761)

New Name
(MRITYUNJAY SINGH)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती श्वेता शर्मा पिता स्व. श्री सीताराम शर्मा सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम श्रीमती रानी शेख पति मुमताज शेख था। अब मैं, अपने वास्तविक नाम श्रीमती श्वेता शर्मा पिता स्व. श्री सीताराम शर्मा दर्ज करवाना चाहती हूँ। अब मैं भविष्य में, श्रीमती श्वेता शर्मा पिता स्व. श्री सीताराम शर्मा नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी। उपरोक्त दोनों नाम श्रीमती श्वेता शर्मा पिता स्व. श्री सीताराम शर्मा व नाम श्रीमती रानी शेख पति मुमताज शेख एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं। अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम श्रीमती श्वेता शर्मा पिता स्व. श्री सीताराम शर्मा के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे।

पुराना नाम
(रानी शेख)
पति-मुमताज शेख
(G-1762)

नया नाम
(श्वेता शर्मा)
पिता-स्व श्री सीताराम शर्मा।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पूर्व नाम अमन शैख पिता श्री मुमताज शैख था। अब मेरे पुत्र का वास्तविक एवं परिवर्तित नाम अमन शर्मा माता श्वेता शर्मा है एवं मेरा पुत्र इस नाम से जाना व पहचाना जाता है जो कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड, पेन कार्ड, शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट पर दर्ज है। अब मैं सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम अमन शर्मा माता श्वेता शर्मा दर्ज करवाना चाहती हूँ। अब मैं भविष्य में मेरा पुत्र अमन शर्मा माता श्वेता शर्मा नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा। उपरोक्त दोनों नाम अमन शैख पिता श्री मुमताज शैख व नाम अमन शर्मा माता श्वेता शर्मा एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे पुत्र के ही हैं। अतः भविष्य में सभी जगह मेरे पुत्र के नये नाम अमन शर्मा माता श्वेता शर्मा के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे।

पुराना नाम
(अमन शैख)
पिता-श्री मुमताज शैख
(G-1763)

नया नाम
(अमन शर्मा)
माता-श्वेता शर्मा

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम शेफ अली पिता श्री मुमताज शेख (पुराना नाम) जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस पर दर्ज है. अब, मैं, अपने सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम राज शर्मा माता श्रीमती श्वेता शर्मा दर्ज करवाना चाहता हूँ. अब, मैं, भविष्य में राज शर्मा माता श्रीमती श्वेता शर्मा नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा. उपरोक्त दोनों नाम राज शर्मा माता श्रीमती श्वेता शर्मा व नाम शेफ अली पिता श्री मुमताज शेख, एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं. अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम राज शर्मा माता श्रीमती श्वेता शर्मा के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा, एवं बोला जावे. सो विदित हो.

पुराना नाम
(शेफ अली)
पिता श्री मुमताज शेख
(G-1764)

नया नाम
(राज शर्मा)
माता श्रीमती श्वेता शर्मा

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम महमूद अहमद को परिवर्तित कर नया नाम महमूद खान Mahmood Khan पिता श्री रमजान खान हो गया है. प्रकाशन उपरांत मेरा नाम महमूद खान Mahmood Khan पिता श्री रमजान खान लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(महमूद अहमद)
(Mahmood Ahmed)
(G-1765)

नया नाम
(महमूद खान)
(Mahmood Khan)

नाम परिवर्तन

मैं, विनय नंदा पिता श्री यशपाल नंदा, निवासी-संत कंवरराम, वार्ड नं. 21, होटल पार्कश्री के पीछे, चाणक्यपुरी कालोनी, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) का होकर सूचित करता हूँ कि मेरा सही नाम विनय नंदा है, जबकि भूलवश मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम विनय कुमार नंदा अंकित हो गया है जो कि गलत है, अतः प्रकाशन उपरांत से विनय नंदा के नाम से जाना-पहचाना एवं संबोधित किया जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(विनय कुमार नंदा)
(G-1766)

नया नाम
(विनय नंदा)

उपनाम परिवर्तन

मैं, रीना सातनकर, 37 ए, सुन्दर नगर, अशोका गार्डन, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में रीना गुजरे है. दोनों एक ही स्त्री के नाम हैं. भविष्य में केवल रीना सातनकर के नाम से ही जाना व पहचाना जाये.

पुराना उपनाम
(रीना गुजरे)
(Reena Gujre)
(G-1767)

नया उपनाम
(रीना सातनकर)
(Reena Satankar)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, देवरी, जिला सागर, मध्यप्रदेश

देवरी, दिनांक 19 जुलाई, 2024

प्रारूप-पांच

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 की धारा 5(1) व 5(2)]

क्र. 879-री-2-2024-एतद्वारा जरिए विज्ञप्ति ग्राम नयापुरा, गौरझामर, तहसील देवरी के ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनोद कुमार जैन, अध्यक्ष, श्री कुंद-कुंद कहान, दिगंबर जैन पारमार्थिक मंदिर ट्रस्ट, नयापुरा, गौर झामर, जिला सागर द्वारा श्री कुंद-कुंद कहान, दिगंबर जैन पारमार्थिक मंदिर ट्रस्ट, नयापुरा, गौरझामर के पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन लोक न्यास अधिनियम में निहित प्रारूप 3 नियम 4(2) के तहत इस न्यायालय में किया गया है. उक्त ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है. जिस पर दिनांक 20 अगस्त 2024 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल संपत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति प्रकाशन उपरांत नियत दिनांक 20 अगस्त 2024 तक स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त हो जाने अथवा नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा:-

1. न्यास का मुख्यालय — श्री कुंद-कुंद कहान, दिगंबर जैन पारमार्थिक मंदिर ट्रस्ट, नयापुरा, गौरझामर, जिला सागर.
2. कार्यक्षेत्र — नयापुरा गौरझामर
3. न्यास का उद्देश्य — दिगम्बर जैन धर्म का प्रचार-प्रसार
4. न्यास के आय के साधन — ट्रस्ट की जमीन से, गुल्लक से एवं दान से

चल व अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है

1. चल सम्पत्ति — 330000/- नगद व ट्रस्ट परिसर में उपयोग की जा रही सामग्री
2. अचल सम्पत्ति — मौजा गौरझामर स्थित भूमि खसरा नंबर 214/2 रकबा 1.08 हे., 216 रकबा 0.03 हे., 210/1/1/2, रकबा 0.28 हे., 210/1/1/1, रकबा 0.04 हे., 218 रकबा 0.030 हे. (में ट्रस्ट द्वारा धारित हित) व 210/1/2, रकबा 0.05 हे., 210/2 रकबा 0.02 हे. 210/3 रकबा 0.06 हे., 210/4, रकबा 0.02 हे.
3. न्यास का उद्देश्य — दिगम्बर जैन धर्म की शिक्षा एवं नैतिकता का प्रचार-प्रसार
4. न्यास के आय के साधन — कृषि भूमि से प्राप्त आय व दानदाताओं द्वारा प्राप्त दान राशि.

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय पदमुद्रा से जारी.

(G-1768)

मुनौअर खान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, देवरी, जिला सागर, मध्यप्रदेश

देवरी, दिनांक 29 जुलाई, 2024

प्र. क्र. 008-बी-113-2023-24

मौजा महाराजपुर, जिला सागर (म.प्र.).

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 की धारा 5(1) व 5(2)]

क्र. 879-री-2-2024-एतद्वारा जरिए विज्ञप्ति सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजेश कुमार सिंघई, उपाध्यक्ष, श्री 1008 नेमीनाथ दिगम्बर जैन पंचायती मंदिर कमेटी महाराजपुर, जिला सागर की ओर से श्री श्री 1008 नेमीनाथ

दिगंबर जैन, पंचायती मंदिर कमेटी महाराजपुर, जिला सागर, मध्यप्रदेश के पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। उक्त ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। जिस पर दिनांक 28 अगस्त 2024 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा।

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल संपत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति प्रकाशन उपरांत नियत दिनांक 28 अगस्त 2024 तक स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने अथवा नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा:-

1. लोक न्यास का पूरा नाम पता — श्री 1008 नेमीनाथ दिगम्बर जैन पंचायती मंदिर कमेटी महाराजपुर, जिला सागर, मध्यप्रदेश.
2. लोक न्यास का उद्गम व प्रकृति — श्री 1008 नेमीनाथ दिगम्बर जैन पंचायती मंदिर कमेटी महाराजपुर, जिला सागर, दिगंबर जैन तेरह पंथी आम्नाओं के अनुरूप धार्मिक समस्त कार्य.
3. स्थान जहां न्यास का मुख्य कार्यालय — श्री 1008 नेमीनाथ दिगम्बर जैन पंचायती मंदिर कमेटी महाराजपुर, जिला सागर.
4. कार्यकारी न्यासी एवं प्रबंधक के नाम व पता. निम्नानुसार है.

क्र.	पद	नाम व पता
1.	अध्यक्ष	श्री नीतेष कुमार सिंघई, नि. महाराजपुर
2.	उपाध्यक्ष	श्री राजेश कुमार सिंघई (हरया), नि. महाराजपुर
3.	महामंत्री	श्री निखिल सिंघई, नि. महाराजपुर
4.	सहमंत्री	श्री शरद कुमार सोधिया, नि. महाराजपुर
5.	सहमंत्री	श्री अखिलेश मोदी, नि. महाराजपुर
6.	सहमंत्री	श्री संजय कुमार सोधिया, नि. महाराजपुर
7.	कोषाध्यक्ष	श्री राजेश कुमार सोधिया, नि. महाराजपुर
8.	सदस्य	श्री शशांक कुमार जैन (चौधरी), नि. महाराजपुर
9.	सदस्य	श्री विपुल कुमार हरया, नि. महाराजपुर
10.	सदस्य	श्री राकेश जैन (सारसबगली), नि. महाराजपुर
11.	सदस्य	श्री राकेश बड़कूल, नि. महाराजपुर
5.	न्यासी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की रीति	न्यासी या सदस्यों की मृत्यु अथवा पद से त्यागपत्र देने की स्थिति में अथवा पद रिक्त होने पर कार्यकारिणी समिति/सदस्यों द्वारा चुनाव प्रक्रिया से.
6.	न्यास सृजित करने वाले दस्तावेज	ट्रस्ट डीड दिनांक 27-2-2023

7. न्यास के संबंध में कोई योजना हो तो
1. न्यास का प्रमुख उद्देश्य श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर जी महाराजपुर, जिला सागर, मध्यप्रदेश की सुरक्षा एवं संचालन, विकास उन्नयन प्रबंधन एवं संधारण सुनिश्चित करना.
 2. दिगंबर जैन तेरह पंथी आम्नाओं एवं आर्ष के अनुरूप धार्मिक आयोजनों पूजन, पाठक का व्यवस्थापन करना, मंदिर संपत्ति का व्यवस्थापन, दिगंबर साधु, साध्वियों व आर्यिकाओं व ब्रम्हाचारी भैया व बहनों के सम्मान की रक्षा
 3. धार्मिक पर्वों पर धार्मिक/सांस्कृतिक अनुष्ठान, धार्मिक संस्कार एवं शिक्षा के प्रसार एवं राष्ट्रीय व नैतिक भावनाओं की वृद्धि हेतु ग्रंथालय, वाचनालय, पाठशाला, धर्मशाला, सभागृह प्रेक्षागृह आदि का निर्माण व प्रबंधन, महिला मंडल व बालिका मंडल का निर्माण कर धार्मिक सामाजिक व राष्ट्रीय हित में कार्य हेतु प्रेरित करना.
8. चल संपत्ति
- पद्मासन प्रतिमाएं-31 खडगासन प्रतिमाएं-175, भामंडल-48, यंत्र जी-29, अष्टव्रातिहार्य-20, चंबर-25, पाण्डुकशिला-5, विमान-1, डडां चांदी-2, थाली चांदी-3, सिंहासन-68, छत्र-54, टेबिल-19, पलंग-7, बाजोटा-25 व अन्य अत्यावश्यक प्रयुक्त सामग्री जैसे गैस, पंखा, आलमारी, घंटा, लाउडस्पीकर आदि तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्ति.
- अचल संपत्ति
- मौजा मढ़पिपरिया व महाराजपुर स्थित कृषि भूमि.
9. न्यास की आय का स्रोत
- मौजा कृषि भूमि से आय व दानदाताओं से प्राप्त राशि.
10. औसत वार्षिक आय
- तकरीबन 5 लाख
11. न्यासी एवं प्रबंधक को सूचना का पता
- श्री 1008 श्री नेमिनाथ दिगम्बर जैन पंचायती मंदिर महाराजपुर, जिला सागर, मध्यप्रदेश.

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय पदमुद्रा से जारी.

भव्या त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(G-1769)

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 जून 2024

प्र. क्र. 01/बी-113 (1)/2024-25.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र. 2225-रीडर-2024.-आवेदक श्री आनंद कुमार शुक्ला आ. श्री द्वारिका प्रसाद शुक्ला, निवासी-146, वल्लभ नगर, शिव मंदिर के पास, सतपुडा, भोपाल द्वारा "किरण चैरिटेबल ट्रस्ट" को ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हों तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञापित के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	: "किरण चैरिटेबल ट्रस्ट".
कार्यालय का पता	: 146, वल्लभ नगर, शिव मंदिर के पास, सतपुड़ा, भोपाल.
अचल सम्पत्ति	: कुछ नहीं.
चल सम्पत्ति	: 11,000 / - (ग्यारह हजार रुपये).

(G-1770)

मोहम्मद इकबाल, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 29 जुलाई, 2024

प्र. क्र. 005/बी-113 (4)/2023-24.

हरदाखास, तहसील हरदा.

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5, उपधारा (5) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये]

क्र. 2202-रीडर-2024.-चूँकि, आवेदकगण श्रीमती रोहिणी यादव पत्नी भगतसिंह यादव, निवासी-गणेश चौक हरदा एवं अन्य-4 द्वारा एक आवेदन मध्यप्रदेश लोक न्यास, अधिनियम, 1951 की धारा 4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

अतः, मैं, कुमार शानु देवडिया, पंजीयक, लोक न्यास, हरदा, जिला हरदा, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 अगस्त 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा आपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

न्यास का नाम	: जीवनदायिनी सेवा ट्रस्ट
न्यास का कार्यालय	: गणेश चौक, गणेश शंकर वार्ड-11, हरदा जनपद, हरदा, मध्यप्रदेश. पिन-4613331.
अचल सम्पत्ति	: हरदा खास के नजूल शीट क्रमांक 09 सी भूखण्ड क्रमांक 51 रकबा 581.04 वर्गफुट पर स्थित 02 मंजिल पक्का भवन.

(G-1771)

कुमार शानु देवडिया, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, उपखण्ड एवं पंजीयक, पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग गोपद बनास, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 26 जुलाई 2024

प्रारूप क्र.-4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सीधी, जिला सीधी के समक्ष.

पृ.क्र. 677-2024.-अतः, कि सुकून वेलफेयर ट्रस्ट वार्ड नं-12, मुखर्जी वार्ड ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951, (1951का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 26 अगस्त 2024 के 10.30 बजे कार्यालय दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम पता : सुकून वेलफेयर ट्रस्ट वार्ड नं-12, मुखर्जी वार्ड, थाना कोतवाली सीधी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (मध्यप्रदेश).

सम्पत्ति का विवरण : 28500.00 रुपये (अट्ठाइस हजार पाँच सौ रुपये) सूची संलग्न है.

(G-1772)

नीलेश कुमार शर्मा, उपखण्ड अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज) इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 15 जुलाई 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 1229-ट्रस्ट-2024.-आवेदक "गौतम लब्धि फाउण्डेशन" इन्दौर ट्रस्ट तर्फे अध्यक्ष श्री हंस कुमार जैन, पता-7, मानक चौक, राजवाड़ा, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा "गौतम लब्धि फाउण्डेशन" इन्दौर का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“गौतम लब्धि फाउण्डेशन” इन्दौर.
कार्यालय पता	:	7, मानक चौक, राजवाड़ा, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	33,000/- (अक्षरी तैतीस हजार रुपये मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 15 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1773)

निधि वर्मा, पंजीयक.

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग व जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
प्र. क्र. 001-ब-113-2024-25-1723. शिवपुरी, दिनांक 23 जुलाई 2024

प्रारूप क्र.-4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक शिवपुरी, जिला शिवपुरी के समक्ष.

यह कि श्री बी. के. शर्मा पुत्र श्री मथुरालाल शर्मा वगैरह, निवासीगण शिवपुरी की ओर से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 27 अगस्त 2024 को प्रातः 11.00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति सा सुझाव को करने का आषेय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	-	भृगुवंशम् समाज पब्लिक ट्रस्ट
लोक न्यास का कार्यालय	-	फिजीकल रोड, शिवपुरी (म.प्र.).
लोक न्यास की चल संपत्ति	-	धर्मशाला, मंदिर एवं विवाहघर में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे बर्तन, फर्श-03, टाटपट्टी-09, मुकुट-02 चांदी के घण्टी-02, पीतल की श्रृंगार सामग्री.
लोक न्यास की अचल संपत्ति	-	निरंक

(G-1774)

उमेश चन्द्र कौरव, अनुविभागीय अधिकारी.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2024—श्रावण 25, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)